

## कैप्सूल रणनीति द्वारा DR. NAYEEM AHMAD SHARIFF

कैप्सूल रणनीति की आवश्यकता किसे है kaipsool rananeeti kee aavashyakata kise hai	कैप्सूल के प्रकार kaipsool ke prakaar	इतेज़ार की अवधि intezaar kee avadhi	धारण करने योग्य स्टॉक की संख्या dhaaran karane yogy stok kee sankhya
नए व्यापारियों के लिए - जो ट्रेडिंग की एबीसी नहीं जानते nae vyaapaariyon ke lie - jo treding kee ebeseee nahin jaanate	मासिक (कृषि भूमि) maasik (krshi bhoomi)	15 - 20 महीने मिनट 15 - 20 maheene minat	केवल 24 कृषि भूमि/कैप्सूल keval 24 krshi bhoomi/kaipsool
उन व्यापारियों के लिए जो घाटे में हैं un vyaapaariyon ke lie jo ghaate mein hain	साप्ताहिक (सूरज फूल) saaptaahik (sooraj phool)	14 - 16 सप्ताह मिनट 14 - 16 saptaah minat	केवल 16 सूरजमुखी/कैप्सूल keval 16 soorajamukhee/kaipsool
लंबी अवधि, छोटी अवधि और स्विंग ट्रेडों के लिए lambee avadhi, chhotee avadhi aur swing tredon ke lie	दैनिक (बीज) dainik (beej)	3 - 4 - 6 दिन मिनट 3 - 4 - 6 din minat	केवल 5 बीज/कैप्सूल keval 5 beej/kaipsool
कैप्सूल स्टॉक को शिफा देते हैं kaipsool stok ko shifa dete hain			
<b>कैप्सूल क्या हैं? kaipsool kya hain?</b>			
शेयर बाजार का ईसीजी = कैप्सूल sheyar baazaar ka eesejee = kaipsool	साप्ताहिक कैप्सूल 0 - यदि मासिक क्रॉस ओवर से पहले साप्ताहिक क्रॉस ओवर होता है saaptaahik kaipsool 0 - yadi maasik kros ovar se pahale saaptaahik kros ovar hota hai		
	साप्ताहिक कैप्सूल 1,2,3 - यदि मासिक क्रॉस ओवर के बाद साप्ताहिक क्रॉस ओवर हो saaptaahik kaipsool 1,2,3 - yadi maasik kros ovar ke baad saaptaahik kros ovar ho		
<b>कैप्सूल रणनीति के लिए शर्तें kaipsool rananeeti ke lie sharten</b>			
महीने के maheene ke		साप्ताहिक saaptaahik	
मासिक एमएसीडी हिस्टोग्राम का क्रॉसओवर (आवश्यक) maasik emeseedee histograam ka krosovar (aavashyak)	साप्ताहिक एमएसीडी हिस्टोग्राम का क्रॉसओवर (आवश्यक) saaptaahik emeseedee histograam ka krosovar (aavashyak)	दैनिक dainik	
हर महीने की मध्य-15 तारीख को ट्रैक करें har maheene kee madhy-15 taareekh ko traik karen	हर मंगलवार और बुधवार को ट्रैक करें har mangalavaar aur budhavaar ko traik karen	मासिक और साप्ताहिक एमएसीडी हिस्टोग्राम का क्रॉसओवर (आवश्यक) maasik aur saaptaahik emeseedee histograam ka krosovar (aavashyak)	
		प्रतिदिन ट्रैक करें pratidin traik karen	
<b>प्रवेश pravesh</b>			
मासिक हिस्टोग्राम के क्रॉसओवर पर maasik histograam ke krosovar par	साप्ताहिक हिस्टोग्राम के क्रॉस ओवर पर saaptaahik histograam ke kros ovar par	दैनिक हिस्टोग्राम के क्रॉसओवर पर dainik histograam ke krosovar par	
दूसरे बार पर (जरूरी) doosare baar par (jarooree)	ON 2nd BAR (MUST)दूसरे बार पर (जरूरी) doosare baar par (jarooree)	दूसरी पट्टी पर (जरूरी) - खेत के बाहर doosaree pattee par (jarooree) - khet ke baahar	
ऑसत - कुल मूल राशि का 50% ausat - kul mool raashi ka 50%	ऑसत - कुल मूल राशि का 25% ausat - kul mool raashi ka 25%	पहली पट्टी पर (जरूरी) - खेत के अंदर pahalee pattee par (jarooree) - khet ke andar	
हमेशा सकारात्मक सप्ताह, सकारात्मक दिन, सकारात्मक 15 मिनट कैप्सूल पर ऊर्जावान hamesha sakaaraatmak saptaah, sakaaraatmak din, sakaaraatmak 15 minat kaipsool par oorjaavaan	हमेशा सकारात्मक सप्ताह, सकारात्मक दिन, सकारात्मक 15 मिनट कैप्सूल पर ऊर्जावान hamesha sakaaraatmak saptaah, sakaaraatmak din, sakaaraatmak 15 minat kaipsool par oorjaavaan	ऑसत - कुल मूल राशि का 25% ausat - kul mool raashi ka 25%	
ऑर्डर बुक जांचें (खरीद/बेचें " <0.5%) ordar buk jaanchen (khareeden/bechen " <0.5%)	ऑर्डर बुक जांचें (खरीद/बेचें " <0.5%) ordar buk jaanchen (khareeden/bechen " <0.5%)	हमेशा सकारात्मक सप्ताह, सकारात्मक दिन, सकारात्मक 15 मिनट कैप्सूल पर ऊर्जावान hamesha sakaaraatmak saptaah, sakaaraatmak din, sakaaraatmak 15 minat kaipsool par oorjaavaan	
		ऑर्डर बुक जांचें (खरीद/बेचें " <0.5%) ordar buk jaanchen (khareeden/bechen " <0.5%)	
<b>अच्छी एंट्री के लिए दोस्त achchhee entree ke lie dost</b>			
आरएसआई - 30 - 70 के बीच - ऊपर की दिशा में रेखा aaresaee - 30 - 70 ke beech - oopar kee disha mein rekha	आरएसआई - 30 - 70 के बीच - ऊपर की दिशा में रेखा aaresaee - 30 - 70 ke beech - oopar kee disha mein rekha	आरएसआई - 30 - 70 के बीच - ऊपर की दिशा में रेखा aaresaee - 30 - 70 ke beech - oopar kee disha mein rekha	
सीसीआई - +100 सकारात्मक से ऊपर seeseaeee - +100 sakaaraatmak se oopar	सीसीआई - +100 सकारात्मक से ऊपर seeseaeee - +100 sakaaraatmak se oopar	सीसीआई - +100 सकारात्मक से ऊपर seeseaeee - +100 sakaaraatmak se oopar	
ईएमए 9 - ऊपर बंद करें eeeme 9 - oopar band karen	ईएमए 9 - ऊपर बंद करें eeeme 9 - oopar band karen	ईएमए 7 - ऊपर बंद करें eeeme 7 - oopar band karen	
<b>बाहर निकलना baahar nikalana</b>			
मासिक हिस्टोग्राम के क्रॉस डाउन पर maasik histograam ke kros daun par	साप्ताहिक हिस्टोग्राम के क्रॉस डाउन पर saaptaahik histograam ke kros daun par	दैनिक हिस्टोग्राम के क्रॉस डाउन पर dainik histograam ke kros daun par	
ईएमए 9 टूटा/ईएमए 9 के नीचे बंद eeeme 9 toota/eeeme 9 ke neeche band	ईएमए 9 टूटा/ईएमए 9 के नीचे बंद eeeme 9 toota/eeeme 9 ke neeche band	ईएमए 7 टूटा/ईएमए 7 के नीचे बंद eeeme 7 toota/eeeme 7 ke neeche band	
सीसीआई (केवल दिन की स्थापना) - नीचे -100 नकारात्मक seeseaeee (keval din kee sthaapana) - neeche -100	सीसीआई (केवल दिन की स्थापना) - नीचे -100 नकारात्मक seeseaeee (keval din kee sthaapana) - neeche -100	सीसीआई (केवल दिन की स्थापना) - नीचे -100 नकारात्मक seeseaeee (keval din kee sthaapana) - neeche -100	

BY MOHAMMED SAMEERUDEEN (ARMS SAMEER)